

To, प्रबंधक/The Manager बीएसई लिमिटेड/BSE Limited, फीरोज जीजीभोय टावर्स/ Phiroj Jeejeebhoy Towers, दलाल स्ट्रीट/Dalal Street, मुम्बई/MUMBAI- 400 001 स्क्रिप कोड/Scrp Code: 532234	To, प्रबंधक/The Manager अनुसूचन विभाग/Listing Department नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., National Stock Exchange of India Ltd., एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कम्प्लेक्स, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, बांद्रा ईस्ट/Bandra East, मुम्बई/MUMBAI-400 051 प्रतीक/Symbol: NATIONALUM
--	---

विषय/Sub.: प्रेस विज्ञप्ति – “नालको Q3 परिणाम FY25” / Press Release - NALCO Q3 Results FY25”.

श्रीमान/Dear Sir,

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 enclosed please find a Press Release titled “NALCO Q3 Results FY25” for your information and record.

धन्यवाद/Thanking you.

भवदीय/Yours faithfully,
कृते नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
For National Aluminium Co. Ltd.

(बी. के. साहू)/(B. K. Sahu)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी /
Company Secretary & Compliance Officer
ACS: 9953

Encl.: As above/संलग्न

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
निगम कार्यालय
नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751 013 भारत

National Aluminium Company Limited
(A Government of India Enterprise)
REGD. & CORPORATE OFFICE
Nalco Bhawan, Nayapalli, Bhubaneswar-751013, India

CIN # L27203OR1981GOI000920

Tel.:0674-2301988-999, Ext.:2265, 2266, 2267, 2585, 2587, E-mail:company_secretary@nalcoindia.co.in,Website:www.nalcoindia.com

=====

PRESS RELEASE

NALCO Q3 Results FY25

Driven by better sales realization, favourable market demand and effective cost management, NALCO Net profit surges 3-fold, Revenue up by 39%

- **Achieves Highest-ever revenue from operations & PAT in Q3 & in cumulative 9 months of FY 25**

Bhubaneswar, 10.02.2025: National Aluminium Company Limited (NALCO), the Navratna PSU, under Ministry of Mines, Govt. of India and country's leading manufacturer and exporter of alumina and aluminium, has registered a threefold increase in net profit for the 3rd quarter ended December 2024. The company's net profit stood at an impressive Rs.1,583 crore compared to Rs.488 crore in the corresponding quarter of last year.

According to the reviewed financial results for the 3rd quarter of FY 25, taken on record by the Board in the meeting held at Bhubaneswar today, NALCO has registered a total income of Rs.4,761 crores in Q3 of FY25 compared to Rs.3,398 crores in Q3 of FY24.

The net profit and revenue from operations for the 9 months ended December 2024 work out to Rs.3,246 crore and Rs.11,520 crore respectively, as against the corresponding figures of Rs.1,044 crore and Rs.9,570 crore of the previous fiscal, recording an increase of 211% in net profit and 20% in revenue from operations.



एक नवरत्न लोक उद्यम A NAVRATNA CPSE

=====

Worth mentioning that NALCO has achieved highest-ever revenue from operations, & Profit after tax in Q3 and 09 months of FY 25.

Attributing the success to the employees, Shri Brijendra Pratap Singh, Chairman-cum-Managing Director, NALCO, said that improvements in process efficiency, reduction in input costs, and enhancing product quality are crucial for company's success. The performance of the present quarter is mostly attributable to better sales realisation in Alumina & Metal, higher sales volume of Alumina, use of captive coal and reduction in cost of raw materials. He also emphasised that now the company's thrust is on early completion of expansion activities including 5th Stream expansion of Refinery, operationalization of Pottangi Mines, Brownfield expansion of Smelter plant and planned CPP expansion.

It may be mentioned that NALCO has also announced an interim dividend @ Rs.4/- per share for the financial year 2024-25.
